



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

प्रथम सत्र

अंक-01

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी, 2019

(पौष 14, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री रामपुकार सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. पंचम विधान सभा के सदस्यों का स्वागत तथा एक मिनट का मौन

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने पंचम् विधान सभा के सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व स्थापित परम्परानुसार सदन द्वारा खड़े होकर एक मिनट का मौन धारण किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ की पंचम् विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की सूची का पटल पर रखा जाना

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय सामयिक अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 308/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2018, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018, जिसमें छत्तीसगढ़ की पंचम् विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूची दी गई है, पटल पर रखी गई ।

4. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री अमरजीत भगत
04. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
05. श्री शिवरतन शर्मा

5. शपथ ग्रहण की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ की पंचम् विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय सदस्यों के शपथ ग्रहण की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र रायपुर एवं निजी चैनलों द्वारा किया जा रहा है ।

6. शपथ ग्रहण

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि- परंपरानुसार सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री, जो सदन के नेता हैं, वे शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे । तत्पश्चात् मंत्रिमंडल के सदस्य, सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट सदस्यगण शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे। इनके बाद शेष माननीय सदस्यगण क्रमशः निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार नाम पुकारे जाने पर मेरे सामने आकर शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे और सचिव, विधान सभा की मेज पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो माननीय सदस्य नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थिति के कारण शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अंत में पुनः नाम पुकारे जाने पर शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे ।

सदस्यों ने निम्नलिखित क्रम में शपथ/प्रतिज्ञान किया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया । हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा में शपथ लेने वाले सदस्य के समक्ष संबंधित भाषा का उल्लेख किया गया है ।

मुख्यमंत्री

1. श्री भूपेश बघेल 62- पाटन (छत्तीसगढ़ी)

मंत्रिमंडल के सदस्य -

2. श्री टी.एस. सिंहदेव 10- अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ी में प्रतिज्ञान)

3. श्री ताम्रध्वज साहू 63- दुर्ग ग्रामीण (छत्तीसगढ़ी)

4. श्री रविन्द्र चौबे 68- साजा

5. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम 6- प्रतापपुर (अजजा) (छत्तीसगढ़ी)

6. श्री मोहम्मद अकबर 72- कवर्धा (प्रतिज्ञान)

7. श्री कवासी लखमा 90- कोन्टा (अजजा)

8. श्रीमती अनिला भेंडिया 60- डोंडीलोहारा (अजजा) (छत्तीसगढ़ी)

9. श्री जयसिंह अग्रवाल 21-कोरबा

10. श्री गुरु रूद्र कुमार 67- अहिवारा (अजा) (प्रतिज्ञान)

11. श्री उमेश पटेल 18-खरसिया (छत्तीसगढ़ी)

सभापति तालिका के सदस्य -

12. श्री सत्यनारायण शर्मा 48- रायपुर ग्रामीण (छत्तीसगढ़ी)

13. श्री धनेन्द्र साहू 53- अभनपुर (छत्तीसगढ़ी)

14. श्री अमरजीत भगत 11-सीतापुर (अजजा)

15. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह 40- बसना

सदस्यगण -

16. श्री गुलाब कमरो 1- भरतपुर(अजजा) सोनहट-

17. डॉ. विनय जायसवाल 2- मनेन्द्रगढ (छत्तीसगढ़ी)

18. श्रीमती अंबिका सिंहदेव 3- बैकुण्ठपुर (अंग्रेजी)

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 19. | श्री खेलसाय सिंह | 4- प्रेमनगर | |
| 20. | श्री पारस नाथ राजवाड़े | 5- भटगांव | |
| 21. | श्री बृहस्पत सिंह | 7- रामानुजगंज (अजजा) | |
| 22. | श्री चिन्तामणि महाराज | 8- सामरी (अजजा) | (संस्कृत) |
| 23. | डॉ. प्रीतम राम | 9-लुण्ड्रा (अजजा) | |
| 24. | श्री विनय कुमार भगत | 12-जशपुर (अजजा) | |
| 25. | श्री यू.डी.मिंज | 13- कुनकुरी (अजजा) | |
| 26. | श्री चक्रधर सिंह सिदार | 15-लैलूंगा (अजजा) | |
| 27. | श्री प्रकाश शक्राजीत नायक | 16- रायगढ | (छत्तीसगढ़ी) |
| 28. | श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े | 17- सारंगढ (अजा) | |
| 29. | श्री लालजीत सिंह राठिया | 19- धरमजयगढ (अजजा) | |
| 30. | श्री पुरुषोत्तम कंवर | 22- कटघोरा | (छत्तीसगढ़ी) |
| 31. | श्री मोहित राम | 23-पाली-तानाखार(अजजा) | |

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री अजीत जोगी, सदस्य को उनके आसन पर ही शपथ लेने की अनुमति प्रदान की ।

- | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|--------------|
| 32. | श्री अजीत जोगी | 24- मरवाही (अजजा) | (छत्तीसगढ़ी) |
| 33. | डॉ. रेणु अजीत जोगी | 25 -कोटा | |
| 34. | श्री धर्मजीत सिंह | 26- लोरमी | |

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य को उनकी अस्वस्थता के कारण सुविधानुसार स्थान पर सभा में शपथ लेने की अनुमति प्रदान की ।

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 35. श्री पुन्नूलाल मोहले | 27- मुंगेली (अजा) | (छत्तीसगढ़ी) |
| 36. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह | 28- तखतपुर | (छत्तीसगढ़ी) |
| 37. श्री शैलेश पाण्डे | 30- बिलासपुर | |
| 38. डॉ. चरणदास महंत | 35-सक्ती | (छत्तीसगढ़ी) |
| 39. श्री रामकुमार यादव | 36- चन्द्रपुर | (छत्तीसगढ़ी) |
| 40. श्री केशव प्रसाद चंद्रा | 37- जैजैपुर | (छत्तीसगढ़ी) |
| 41. श्रीमती इंदू बंजारे | 38- पामगढ (अजा) | (प्रतिज्ञान) |
| 42. श्री किस्मत लाल नन्द | 39- सराईपाली (अजा) | (प्रतिज्ञान) |
| 43. श्री द्वारिकाधीश यादव | 41- खल्लारी | |
| 44. श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर | 42- महासमुन्द | (छत्तीसगढ़ी) |
| 45. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय | 43- बिलाईगढ (अजा) | |
| 46. सुश्री शकुन्तला साहू | 44- कसडोल | |
| 47. श्री प्रमोद कुमार शर्मा | 45- बलौदाबाजार | |
| 48. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा | 47- घरसीवा | (छत्तीसगढ़ी) |
| 49. श्री विकास उपाध्याय | 49- रायपुर नगर पश्चिम | |
| 50. श्री कुलदीप जुनेजा | 50- रायपुर नगर उत्तर | |
| 51. श्री अमितेश शुक्ल | 54- राजिम | |
| 52. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव | 56- सिहावा(अजजा) | |
| 53. श्रीमती संगीता सिन्हा | 59- संजारी बालोद | |
| 54. श्री कुंवरसिंह निषाद | 61- गुण्डरदेही | (छत्तीसगढ़ी) |
| 55. श्री अरूण वोरा | 64- दुर्ग शहर | |
| 56. श्री देवेन्द्र यादव | 65- भिलाई नगर | |

- | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 57. | श्री आशीष कुमार छाबडा | 69- | बेमेतरा | |
| 58. | श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे | 70- | नवागढ़ (अजा) | |
| 59. | श्री ममता चन्द्राकर | 71- | पंडरिया | (छत्तीसगढ़ी) |
| 60. | श्री देवव्रत सिंह | 73- | खैरागढ़ | |
| 61. | श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल | 74- | डोंगरगढ़ (अजा) | |
| 62. | श्री दलेश्वर साहू | 76- | डोंगरगांव | |
| 63. | श्रीमती छन्नी चंदू साहू | 77- | खुज्जी | |
| 64. | श्री इन्द्रशाह मण्डावी | 78- | मोहला-मानपुर(अजजा) | |
| 65. | श्री अनूप नाग | 79- | अंतागढ़ | |
| 66. | श्री मनोज सिंह मण्डावी | 80- | भानुप्रतापपुर (अजजा) | |
| 67. | श्री शिशुपाल सोरी | 81- | कांकेर (अजजा) | (प्रतिज्ञान) |
| 68. | श्री संतराम नेताम | 82- | केशकाल (अजजा) | |
| 69. | श्री मोहन मरकाम | 83- | कोण्डागांव (अजजा) | (छत्तीसगढ़ी में प्रतिज्ञान) |
| 70. | श्री चंदन कश्यप | 84- | नारायणपुर (अजजा) | |
| 71. | श्री बघेल लखेश्वर | 85- | बस्तर (अजजा) | |
| 72. | श्री रेखचन्द्र जैन | 86- | जगदलपुर | |
| 73. | श्री दीपक बैज | 87- | चित्रकोट (अजजा) | |
| 74. | श्री विक्रम मण्डावी | 89- | बीजापुर (अजजा) | |

7. अध्यक्ष का निर्वाचन

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के उप नियम (1) एवं (2) के अंतर्गत विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिये माननीय सदस्य श्री चरण दास महंत हेतु पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से पांच प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) कि अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं ।

01. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया - “श्री चरणदास महंत, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।“

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

02. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि -“श्री चरणदास महंत, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।“

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

03. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया गया - “श्री चरणदास महंत, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाय ।“

डॉ.रेणु अजीत जोगी, सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

सामयिक अध्यक्ष द्वारा श्री चरण दास महंत को इस विधान सभा का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया तथा उनके विधान सभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर बधाई दी गई ।

(मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ससम्मान आसंदी तक ले गए)

अध्यक्ष महोदय (श्री चरणदास महंत) पीठासीन हुए।

8. नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति उद्गार

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, मोहन मरकाम, सदस्य, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री अजीत जोगी, केशव प्रसाद चन्द्रा, अमरजीत भगत, सदस्यों द्वारा उद्गार व्यक्त किए गए ।

9. शपथ ग्रहण (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व में अनुपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं, नाम पुकारे जाने पर वे क्रमानुसार शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे :-

75. श्री शिवरतन शर्मा	46- भाटापारा	(छत्तीसगढ़ी)
76. श्री ननकी राम कंवर	20- रामपुर (अजजा)	
77. श्री धरम लाल कौशिक	29- बिल्हा	(छत्तीसगढ़ी)
78. श्री रजनीश कुमार सिंह	31- बेलतरा	(छत्तीसगढ़ी)
79. डॉ० कृष्णमूर्ति बांधी	32- मस्तूरी (अजा)	(छत्तीसगढ़ी)
80. श्री सौरभ सिंह	33- अकलतरा	(छत्तीसगढ़ी)
81. श्री नारायण प्रसाद चंदेल	34- जांजगीर-चांपा	
82. श्री बृजमोहन अग्रवाल	51- रायपुर नगर दक्षिण	(छत्तीसगढ़ी)
83. श्री डमरूधर पुजारी	55- बिन्द्रानवागढ़ (अजजा)	
84. श्री अजय चन्द्राकर	57- कुरूद	
85. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	58- धमतरी	
86. श्री विद्यारतन भसीन	66- वैशाली नगर	(प्रतिज्ञान)
87. डॉ.रमन सिंह	75- राजनांदगांव	
88. श्री भीमा मण्डावी	88- दन्तेवाड़ा (अजजा)	

10. नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति उद्गार (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य ने उद्गार व्यक्त किये ।

11. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है।

12. नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति उद्गार (क्रमशः)

श्री रामकुमार यादव एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने भी उद्गार व्यक्त किए। नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर सदन का आभार व्यक्त करते हुए उद्गार प्रकट किए।

13. मुख्य विपक्षी दल की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- “पंचम विधान सभा में प्रतिपक्ष दलों में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तथा गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या में है। इसलिए मैं, भारतीय जनता पार्टी दल को सदन का मुख्य विपक्षी दल और उसके नेता श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करता हूँ।”

14. कार्यमंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 203 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कार्यमंत्रणा समिति के लिए वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि तथा 2019-2020 हेतु सेवा करने के लिए नियुक्त करता हूँ :-

01. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
02. श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
03. श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री

04. श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री
05. श्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री
06. डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री
07. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
08. डॉ.रमन सिंह, सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

01. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
02. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
03. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
04. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
05. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
06. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे ।

अपराहन 1.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2018 (पौष-17, शक संवत् 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा